



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2006/आषाढ़ 20, 1928

No. 306]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2006/ASADHA 20, 1928

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2006

सा.का.पि. 411(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सांख्यिकीय सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है ।
(2) ये 5 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
- भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961 की अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची - 1

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए ड्यूटी पदों की अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए अंतिम रूप से स्वीकृत किए पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय	पद का पदनाम	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
		उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी-1 (रु. 22400 - 600 - 26000)	2	2
1.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	1	1

	ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	महानिदेशक, सांख्यिकीय संगठन	केन्द्रीय	1	1
	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी-II (सं. 22400 - 525 - 24500)			10	10
1.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
	क) राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)	अपर महानिदेशक		3	3
	ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	अपर महानिदेशक		5	5
2.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग	अपर महानिदेशक		1	1
3	जल संसाधन मंत्रालय, (मुख्य)	अपर महानिदेशक		1	1
	वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (सं. 18400 - 500 - 22400)			81	81
1.	कृषि मंत्रालय			4	4
	क) कृषि और सहकारिता विभाग (मुख्य)	सलाहकार(सांख्यिकी)		1	1
	ख) कृषि और सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	उप महानिदेशक		2	2
	ग) पशुपालन और डेयरी विभाग	उप महानिदेशक		1	1
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	उप महानिदेशक		1	1
3.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			2	2
	क) वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय	अपर महानिदेशक (सांख्यिकी)		1	1
	ख) वाणिज्य विभाग, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता	महा निदेशक		1	1
4.	रक्षा मंत्रालय(मुख्य)	उप महानिदेशक		1	1
5.	पर्यावरण और वन मंत्रालय (मुख्य)	उप महानिदेशक		1	1
6.	वित्त मंत्रालय			2	2
	क) राजस्व विभाग, सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय, (उत्पाद और सीमा शुल्क)(सीबीईसी)	उप महानिदेशक		1	1
	ख) राजस्व विभाग, आयकर निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रचार) (सीबीडीटी)	उप महानिदेशक		1	1
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			3	3
	क) स्वास्थ्य विभाग	उप महानिदेशक		2	2
	ख) परिवार कल्याण विभाग	मुख्य निदेशक		1	1
8.	गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	उप महानिदेशक		1	1
9.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय			2	2
	क) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग	उप महानिदेशक		1	1

	ख) महिला और बाल विकास विभाग	उप महानिदेशक	1	1
10.	श्रम मंत्रालय		2	2
	क) मंत्रालय (मुख्य)	उप महानिदेशक	1	1
	ख) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय	उप महानिदेशक	1	1
11.	योजना आयोग	उप महानिदेशक	1	1
12.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	उप महानिदेशक	1	1
13.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (बायो-टेक्नॉलॉजी विभाग)	उप महानिदेशक	1	1
14.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		55	55
	क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	उप महानिदेशक	13	13
	ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्रीय प्रभाग)	उप महानिदेशक	41	41
	ग) संगणक केन्द्र	उप महानिदेशक	1	1
15.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	उप महानिदेशक	1	1
16.	पर्यटन मंत्रालय	अपर महानिदेशक (एमआर)	1	1
17.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	उप महानिदेशक	1	1
18.	जल संसाधन मंत्रालय (केन्द्रीय जल आयोग)	सलाहकार (सांख्यिकी)	1	1
कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (रु. 12000 - 375 - 16500)			219	219
1.	कृषि मंत्रालय		14		14
	क) कृषि और सहकारिता विभाग (मुख्य)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	4	4
	ख) कृषि और सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	4	4
	ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	घ) पशुपालन और डेयरी विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	5	5
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		2		2
	क) उर्वरक विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	ख) रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
3.	नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
4.	कोयला मंत्रालय		1	1
	कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		14		14
	क) वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	3	3
	ख) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता	निदेशक/संयुक्त निदेशक	7	7
	ग) वाणिज्य विभाग, आपूर्ति और वितरण महानिदेशालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1

	ड.) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग(टैरिफ आयोग)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
6.	रक्षा मंत्रालय		3	3
	क) प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन(एमआईएसओ), महानिदेशालय, सूचना प्रणाली	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	ख) पुनर्वास महानिदेशालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	ग) नौसेना मुख्यालय, सेना भवन	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
7	उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
8	पयोवर्षण और वन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग)		4	4
	क) राजस्व विभाग(कर अनुसंधान एकक)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	ख) सांख्यिकी और आसूचना निदेशालय, (सीमा और उत्पाद शुल्क)सीबीईसी	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	ग) आयकर निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रचार)(सीबीडीटी)	मुख्य सांख्यिकीय सलाहकार	2	2
10	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		12	12
	क) स्वास्थ्य विभाग (जिसके अंतर्गत डीजीएचएस और उससे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी हैं)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	5	5
	ख) परिवार कल्याण विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	6	6
	ग) आयुष विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
11	गृह मंत्रालय,		5		5
	क) गृह विभाग, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	उप महारजिस्ट्रार	4	4
	ख) गृह विभाग, आसूचना ब्यूरो	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
12	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		2	2
	क) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	ख) महिला और बाल विकास विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
13	श्रम मंत्रालय		8	8
	क) मंत्रालय (मुख्य)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय, भुवनेश्वर	निदेशक/संयुक्त निदेशक	3	3
	ग) श्रम ब्यूरो, शिमला/घंड़ीगढ़	निदेशक/संयुक्त निदेशक	4	4
14	क) खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, नगमपुर	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
15	योजना आयोग		6	6
	क) योजना आयोग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	5	5
	ख) कार्यक्रम मंत्र्यांकन संगठन (पीईआ)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1

16.	जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	2	2
17.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	2	2
18.	लघु उद्योग मंत्रालय, (विकास आयुक्त का कार्यालय, लघु उद्योग)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
19.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		130	130
	क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	निदेशक/संयुक्त निदेशक	48	48
	ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	82	82
20.	पर्यटन मंत्रालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
21.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
22.	जल संसाधन मंत्रालय		7	7
	क) मंत्रालय (मुख्य)	निदेशक/संयुक्त निदेशक	3	3
	ख) केन्द्रीय जल आयोग	निदेशक/संयुक्त निदेशक	2	2
	ग) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
	घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद	निदेशक/संयुक्त निदेशक	1	1
ज्येष्ठ समयमान (रु. 10,000-325-15200)			207	207
1	कृषि मंत्रालय		10	10
	क) कृषि एवं सहकारिता विभाग (मुख्य)	उप निदेशक	1	1
	ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	उप निदेशक	3	3
	ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, पौधा संरक्षण, संगरोधन तथा भंडारण, फरीदाबाद	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1	1
	घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, एसडीडीएस	उप निदेशक	1	1
	ड.) पशुपालन एवं डेयरी विभाग	उप निदेशक	4	4
2	नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन निदेशालय	उप निदेशक	2	2
3	कोयला मंत्रालय (कोयला नियंत्रक का कार्यालय, कोलकाता)	उप निदेशक	1	1
4	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		11	11
	क) वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय	उप निदेशक	1	1
	ख) वाणिज्य विभाग, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता	उप निदेशक	6	6
	ग) वाणिज्य विभाग, पूर्ति एवं वितरण महानिदेशालय	उप निदेशक	2	2
	घ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, टेरिफ आयोग	उप निदेशक	1	1
	ड.) आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	उप निदेशक	1	1
5	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		2	2
	क) डाक विभाग	उप निदेशक	1	1
	ख) दूरसंचार विभाग	उप निदेशक	1	1
6	कंपनी कार्य मंत्रालय	उप निदेशक	1	1

7	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		1	1
	खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर	उप निदेशक	1	1
8	संस्कृति मंत्रालय	उप निदेशक	2	2
9	रक्षा मंत्रालय		3	3
	क) प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन (एमआईएसओ), डीजी, सूचना प्रणाली	उप निदेशक	2	2
	ख) सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय (थल सेना मुख्यालय)	उप निदेशक	1	1
10	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		1	1
	भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून	उप निदेशक	1	1
11	वित्त मंत्रालय		6	6
	क) व्यय विभाग	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1	1
	ख) राजस्व विभाग, कर अनुसंधान एकक	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	2	2
	ग) राजस्व विभाग, सांख्यिकी एवं आरगूचना निदेशालय (उत्पाद एवं सीमा शुल्क) सीबीईसी	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	2	2
	घ) आयकर निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रचार)	सहायक मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी	1	1
12	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	उप निदेशक	1	1
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		17	17
	क) स्वास्थ्य विभाग (डीजीएसएस तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित)	उप निदेशक	9	9
	ख) परिवार कल्याण विभाग	उप निदेशक/ ज्येष्ठ सांख्यिकीविद्	7	7
	ग) आयुष विभाग	उप निदेशक	1	1
14	गृह मंत्रालय		6	6
	क) गृह विभाग, आसचूना ब्यूरो	उप निदेशक	1	1
	ख) गृह विभाग, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	4	4
	ग) गृह विभाग, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी	1	1
15	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		5	5
	क) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग	उप निदेशक	2	2
	ख) महिला एवं बाल विकास विभाग	उप निदेशक	3	3
16	श्रम मंत्रालय		10	10
	क) मंत्रालय (मुख्य)	उप निदेशक	1	1
	ख) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	उप निदेशक	1	1
	ग) कारखाना सलाह संवाए तथा श्रम संस्थान, मुंबई	उप निदेशक	1	1
	घ) खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनवाद	उप निदेशक	3	3
	ड.) श्रम ब्यूरो, शिमला/चंडीगढ़	उप निदेशक	4	4
17	खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर	उप खनिज अर्थशास्त्री	4	4
18	योजना आयोग		8	8
	क) योजना आयोग	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	7	7
	ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ)	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1	1

19	जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	उप निदेशक	2	2
20	ग्रामीण विकास मंत्रालय	उप निदेशक	1	1
21	लघु उद्योग मंत्रालय, विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग)	उप निदेशक	6	6
22	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		87	87
	क) केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन	उप निदेशक	30	30
	ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)	उप निदेशक	57	57
23	इस्पात मंत्रालय	उप निदेशक	1	1
24	वस्त्र मंत्रालय		2	2
	क) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई	उप निदेशक	1	1
	ख) विकास आयुक्त का कार्यालय, हस्तशिल्प	उप निदेशक	1	1
25	पर्यटन मंत्रालय	उप निदेशक	2	2
26	जनजातीय कार्य मंत्रालय	उप निदेशक	2	2
27	शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, राष्ट्रीय भवन संगठन	उप निदेशक	1	1
28	जल संसाधन मंत्रालय		12	12
	क) मंत्रालय (मुख्य)	उप निदेशक	3	3
	ख) केंद्रीय जल आयोग	उप निदेशक	7	7
	ग) केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे	उप निदेशक	1	1
	घ) केंद्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद	उप निदेशक	1	1
कनिष्ठ समयमान (रु. 8000-275-13500)			230	230
1	कृषि मंत्रालय		11	11
	क) कृषि एवं सहकारिता विभाग (मुख्य)	सहायक निदेशक	2	2
	ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	सहायक निदेशक	3	3
	ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग	अनुसंधान अधिकारी	1	1
	घ) पशुपालन एवं डेयरी विभाग	सहायक निदेशक	5	5
2	नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन निदेशालय	सहायक निदेशक	2	2
3	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		16	16
	क) वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय	सहायक निदेशक	4	4
	ख) वाणिज्य विभाग, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता	सहायक निदेशक	5	5
	ग) वाणिज्य विभाग, पूर्ति एवं वितरण महानिदेशालय	सहायक निदेशक	5	5
	घ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सहायक निदेशक	1	1
	ड.) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	सहायक निदेशक	1	1
4	कंपनी कार्य मंत्रालय	सहायक निदेशक	1	1

5	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय क) खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	सहायक निदेशक	1	1
6	संस्कृति मंत्रालय	सहायक निदेशक	4	4
7	रक्षा मंत्रालय		7	
	क) प्रबंधन सूचना प्रणाली संस्थान (एमआईएनओ), डीजी सूचना प्रणाली	सहायक निदेशक	4	4
	ख) वायु सेना मुख्यालय	सहायक निदेशक	1	1
	ग) उड़ान सुरक्षा निदेशालय (वायु सेना मुख्यालय के अधीन)	सहायक निदेशक	2	2
8	वित्त मंत्रालय		2	2
	अ) राजस्व विभाग (कर अनुसंधान एकक)	अनुसंधान अधिकारी	1	1
	ख) आयकर निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रचार) (सीबीडीटी)	सांख्यिकीविद्	1	1
9	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सहायक निदेशक	1	1
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		20	20
	क) स्वास्थ्य विभाग (डी.जी.एस.एस. तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित)	सहायक निदेशक/ सांख्यिकीविद्/ सांख्यिकीय अधिकारी	11	11
	ख) परिवार कल्याण विभाग	सहायक निदेशक	8	8
	ग) आयुष विभाग	सहायक निदेशक	1	1
11	गृह मंत्रालय		5	5
	क) गृह विभाग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो	सहायक निदेशक	1	1
	ख) गृह विभाग, भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय	अनुसंधान अधिकारी	3	3
	ग) गृह विभाग, एनसीआरवी	सहायक निदेशक	1	1
12	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		12	12
	क) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग	सहायक निदेशक	7	7
	ख) महिला एवं बाल विकास विभाग	सहायक निदेशक	5	5
13	श्रम मंत्रालय		14	14
	क) मंत्रालय (मुख्य)	सहायक निदेशक	3	3
	ख) राजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	सहायक निदेशक	1	1
	ग) मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय	सहायक निदेशक	1	1
	घ) श्रम ब्यूरो, शिमला/घंडीगढ़	सहायक निदेशक	9	9
14	खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर	सहायक खनिज अर्थशास्त्री	5	5
15	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अनुसंधान अधिकारी	1	1
16	योजना आयोग		7	7
	क) योजना आयोग	अनुसंधान अधिकारी	5	5
	ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ)	अनुसंधान अधिकारी	2	2
17	ग्रामीण विकास मंत्रालय	सहायक निदेशक	5	5
18	लघु उद्योग मंत्रालय, विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग)	सहायक निदेशक	12	12

19	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		87	87
	क) केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन	सहायक निदेशक	10	10
	ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)	सहायक निदेशक	77	77
20	इस्पात मंत्रालय	सहायक निदेशक	1	1
21	वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई	सहायक निदेशक	1	1
22	पर्यटन मंत्रालय	सहायक निदेशक	4	4
23	शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन (टीसीपीओ)	सहायक निदेशक	1	1
24	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		3	3
	क) राष्ट्रीय भवन संगठन	अनुसंधान अधिकारी	3	3
25	जल संसाधन मंत्रालय		7	7
	क) मंत्रालय (मुख्य)	सहायक निदेशक	2	2
	ख) केंद्रीय जल आयोग	सहायक निदेशक	4	4
	ग) केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे	अनुसंधान अधिकारी	1	1

[फा. सं. 11011/3/2005-आईएसएस]

ए. के. सक्सेना, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:

- (1) मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. (अ) 1320 तारीख 1 नवम्बर, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	247	22 फरवरी, 64
2.	286	27 फरवरी, 65
3.	1950	24 दिसम्बर, 66
4.	1996	31 दिसम्बर, 66
5.	1640	4 नवम्बर, 67
6.	50	10 जनवरी, 70
7.	1273	5 सितम्बर, 70
8.	1702	26 सितम्बर, 70
9.	174	12 फरवरी, 72
10.	196	19 फरवरी, 72
11.	202 (अ)	19 अप्रैल, 73
12.	454	5 मई, 73
13.	692	7 जुलाई, 73
14.	1087	6 अक्टूबर, 73
15.	1156	27 अक्टूबर, 73
16.	688	6 जुलाई, 74
17.	1039	28 सितम्बर, 74
18.	201	15 फरवरी, 75
19.	478	19 अप्रैल, 75
20.	757	21 जून, 75
21.	935	2 अगस्त, 75
22.	2663	15 नवम्बर, 75
23.	1395	2 अक्टूबर, 76

24.	1521	30 अक्टूबर, 76
25.	156	5 फरवरी, 77
26.	1396	22 अक्टूबर, 77
27.	360	18 मार्च, 78
28.	1252	21 अक्टूबर, 78
29.	854	23 जून, 79
30.	1080	25 अगस्त, 79
31.	423	19 अप्रैल, 80
32.	897	6 सितम्बर, 80
33.	155	14 फरवरी, 81
34.	473	18 मई, 81
35.	748	15 अगस्त, 81
36.	142	13 फरवरी, 82
37.	710	13 सितम्बर, 83
38.	138	9 फरवरी, 85
39.	502	25 मई, 85
40.	1124	27 दिसम्बर, 86
41.	2	3 जनवरी, 87
42.	109 (अ)	20 फरवरी, 89
43.	512	18 अगस्त, 90
44.	144	26 मार्च, 94
45.	502	15 जून, 95
46.	16	17 जनवरी, 98
47.	289	11 सितम्बर, 99
48.	24 (अ)	13 जनवरी, 03
49.	25 (अ)	13 जनवरी, 03
50.	583 (अ)	14 सितम्बर, 05
51.	584 (अ)	14 सितम्बर, 05

व्याख्यात्मक ज्ञापन

कार्यकारी आदेश सं. 12011/1/2003-आईएसएस (खंड-5) जो कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) केंद्र की पुनः संरचना के लिए संघ मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर जारी किया गया था, के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप अनुसूची I के संशोधन को प्रस्तावित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय नियम, 1961 को 5 जनवरी, 2006 से तदनुसार संशोधित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2006

G.S.R. 411(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Statistical Service Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Indian Statistical Service Recruitment (Amendment) Rules, 2006.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 5th January, 2006.

2. For Schedule I to the Indian Statistical Service Rules, 1961, the following schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE I

Statement showing the number of posts finally accepted for inclusion in the schedule of Duty Posts for the Indian Statistical Service.

Serial No.	Ministry/ Department/ Office	Designation of the post	Number of Posts		
			Permanent	Temporary	Total
Higher Administrative Grade-I (Rs 22400 - 600 - 26000)			2	2
1.	Ministry of Statistics & Programme Implementation				
	a) National Sample Survey Organisation	Director General & Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation	1	...	1
	b) Central Statistical Organisation	Director General, Central Statistical Organisation	1	...	1
Higher Administrative Grade-II (Rs 22400 - 525 - 24500)			10	10
1.	Ministry of Statistics & Programme Implementation				
	a) National Sample Survey Organisation (Field Operations Division)	Additional Director General	3	3
	b) Central Statistical Organisation	Additional Director General	5	5
2.	Ministry of Health & Family Welfare, Department of Family Welfare	Additional Director General	1	1
3.	Ministry of Water Resources, (Proper)	Additional Director General	1	1
Senior Administrative Grade (Rs. 18400 - 500 - 22400)			81	81
1	Ministry of Agriculture		4	4
	a) Department of Agriculture & Co-operation (Proper)	Adviser (Statistics)	1	1
	b) Department of Agriculture & Co-operation, Directorate of Economics & Statistics	Deputy Director General	2	2
	c) Department of Animal Husbandry & Dairying	Deputy Director General	1	1
2	Ministry of Chemicals & Fertilisers Department of Chemical & Petro-chemicals	Deputy Director General	1	1

3	Ministry of Commerce & Industry		2	2
	(a) Department of Commerce, Directorate General of Foreign Trade	Additional Director General (Statistics)	1	1
	(b) Department of Commerce, Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Kolkata	Director General	1	1
4	Ministry of Defence (Proper)	Deputy Director General	1	1
5	Ministry of Environment & Forest (Proper)	Deputy Director General	1	1
6	Ministry of Finance		2	2
	a) Department of Revenue Directorate of Statistics & Intelligence, (Custom & Excise) (CBEC)	Deputy Director General	1	1
	b) Department of Revenue Directorate of Income Tax (Research, Statistics & Publicity) (CBDT)	Deputy Director General	1	1
7	Ministry of Health & Family Welfare		3	3
	(a) Department of Health	Deputy Director General	2	2
	(b) Department of Family Welfare	Chief Director	1	1
8	Ministry of Home Affairs Office of the Registrar General of India	Deputy Director General	1	1
9	Ministry of Human Resource Development		2	2
	a) Department of Secondary & Higher Education	Deputy Director General	1	1
	b) Department of Women & Child Development	Deputy Director General	1	1
10	Ministry of Labour		2	2
	a) Ministry (Proper)	Deputy Director General	1	1
	b) Directorate General of Employment & Training	Deputy Director General	1	1
11	Planning Commission	Deputy Director General	1	1
12	Ministry of Rural Development	Deputy Director General	1	1
13	Ministry of Science & Technology, (Department of Bio Technology)	Deputy Director General	1	1

14	Ministry of Statistics & Programme Implementation		55	55
	(a) Central Statistical Organisation	Deputy Director General	13	13
	(b) National Sample Survey Organisation (Field Operations Division)	Deputy Director General	41	41
	(c) Computer Centre	Deputy Director General	1	1
15	Ministry of Social Justice & Empowerment	Deputy Director General	1	1
16	Ministry of Tourism	Addl. Director General (MR)	1	1
17	Ministry of Tribal Affairs	Deputy Director General	1	1
18	Ministry of Water Resources (Central Water Commission)	Adviser (Statistics)	1	1
Junior Administrative Grade (Rs.12000 - 375 - 16500)			219	219
1	Ministry of Agriculture		14	14
	a) Department of Agriculture & Co-operation (Proper)	Director/ Joint Director	4	4
	b) Department of Agriculture & Co-operation, Directorate of Economics & Statistics	Director/ Joint Director	4	4
	c) Commission for Agricultural Costs & Prices	Director/ Joint Director	1	1
	(d) Department of Animal Husbandry & Dairying	Director/ Joint Director	5	5
2	Ministry of Chemicals & Fertilisers		2	2
	a) Department of Fertilisers	Director/ Joint Director	1	1
	b) Department of Chemicals & Petrochemicals	Director/ Joint Director	1	1
3	Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation	Director/ Joint Director	1	1
4	Ministry of Coal				
	M/o Coal, Office of Coal Controller, Kolkata	Director/ Joint Director	1	1
5	Ministry of Commerce & Industry		14	14
	(a) Department of Commerce, Directorate General of Foreign Trade	Director/ Joint Director	3	3
	(b) Department of Commerce, Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Kolkata	Director/ Joint Director	7	7

	c) Department of Commerce, Directorate General of Supplies & Disposals	Director/ Joint Director	1	1
	d) Department of Industrial Policy and Promotion	Director/ Joint Director	1	1
	e) Department of Industrial Policy & Promotion (Tariff Commission)	Director/ Joint Director	1	1
	f) Department. of Industrial Policy & Promotion (Office of the Economic Adviser)	Director/ Joint Director	1	1
6	Ministry of Defence		3	...	3
	a) Management Information System Organisation (MISO), DG, Info. System	Director/ Joint Director	1	1
	b) Directorate General of Resettlement	Director/ Joint Director	1	1
	c) Naval Headquarters., Sena Bhavan	Director/ Joint Director	1	1
7	Ministry of Development of North Eastern Region	Director/ Joint Director	1	1
8	Ministry of Environment & Forest, Forest Survey of India , Dehradun	Director/ Joint Director	1	1
9	Ministry of Finance (Department of Revenue)		4	4
	a) Department of Revenue (Tax Research Unit)	Director/ Joint Director	1	1
	b) Directorate of Stat. & Intelligence, (Custom & Excise) CBEC	Director/ Joint Director	1	1
	c) Directorate of Income Tax (Research, Statistics & Publicity) (CBDT)	Chief Statistical Adviser	2	2
10	Ministry of Health & Family Welfare		12	12
	a) Department of Health (including DGHS and its attached and Subordinate offices)	Director/ Joint Director	5	5
	b) Department of Family Welfare	Director/ Joint Director	6	6
	c) Department of Ayush	Director/ Joint Director	1	1
11	Ministry of Home Affairs		5	5
	a) Department of Home, Office of Registrar General of India	Deputy Registrar General	4	4
	b) Department of Home, Intelligence Bureau	Director/ Joint Director	1	1

12	Ministry of Human Resource Development		2	2
	a) Department of Secondary & Higher Education	Director/ Joint Director	1	1
	b) Department of Women & Child Development	Director/ Joint Director	1	1
13	Ministry of Labour		8	8
	a) Ministry (Proper)	Director/ Joint Director	1	1
	b) Directorate General of Mines Safety, Dhanbad	Director/ Joint Director	3	3
	c) Labour Bureau, Shimla/Chandigarh	Director/ Joint Director	4	4
14	a) Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur	Director/ Joint Director	1	1
15	Planning Commission		6	6
	a) Planning Commission	Director/ Joint Director	5	5
	b) Programme Evaluation Organisation (PEO)	Director/ Joint Director	1	1
16	Ministry of Shipping Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways	Director/ Joint Director	2	2
17	Ministry of Rural Development	Director/ Joint Director	2	2
18	Ministry of Small Scale Industries, (Office of Development Commissioner (Small Scale Industries)	Director/ Joint Director	1	1
19	Ministry of Statistics & Programme Implementation		130	130
	a) Central Statistical Organisation	Director/ Joint Director	48	48
	c) National Sample Survey Organisation (Field Operations Division)	Director/ Joint Director	82	82
20	Ministry of Tourism	Director/ Joint Director	1	1
21	Ministry of Tribal Affairs	Director/ Joint Director	1	1
22	Ministry of Water Resources		7	7
	a) Ministry (Proper)	Director/ Joint Director	3	3
	b) Central Water Commission	Director/ Joint Director	2	2
	c) Central Water & Power Research Station, Pune	Director/ Joint Director	1	1
	d) Central Ground Water Board, Faridabad	Director/ Joint Director	1	1

Senior Time Scale (Rs.10,000 - 325 - 15200)		207	207
1	Ministry of Agriculture	10	10
	a) Department of Agriculture & Cooperation (Proper) Deputy Director	1	1
	b) Department of Agriculture & Co-operation, Directorate of Economics & Statistics Deputy Director	3	3
	c) Department of Agriculture & Co-operation, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, Faridabad Senior Research Officer	1	1
	d) Department of Agriculture & Co-operation, SDDS Deputy Director	1	1
	e) Department of Animal Husbandry & Dairying Deputy Director	4	4
2	Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation Deputy Director	2	2
3	Ministry of Coal, (Office of the Coal Controller, Kolkata) Deputy Director	1	1
4	Ministry of Commerce & Industry	11	11
	a) Department of Commerce, Directorate General of Foreign Trade Deputy Director	1	1
	b) Department of Commerce, Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Kolkata Deputy Director	6	6
	c) Department of Commerce, Directorate General of Supplies & Disposals Deputy Director	2	2
	d) Department of Industrial Policy & Promotion, Tariff Commission Deputy Director	1	1
	e) Office of the Economic Adviser Deputy Director	1	1
5	Ministry of Communication & Information Technology	2	2
	a) Department of Post Deputy Director	1	1
	b) Department of Telecommunications Deputy Director	1	1
6	Ministry of Company Affairs Deputy Director	1	...	1

7	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution		1	1
	Department of Food & Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur	Deputy Director	1	1
8	Ministry of Culture	Deputy Director	2	2
9	Ministry of Defence		3	3
	a) Management Information System Organisation (MISO), DG, Infor. Systems	Deputy Director	2	2
	b) Military Training Directorate (Army Headquarters)	Deputy Director	1	1
10	Ministry of Environment & Forest		1	...	1
	Forest Survey of India, Dehradun	Deputy Director	1	1
11	Ministry of Finance		6	6
	a) Department of Expenditure	Senior Research Officer	1	1
	b) Department of Revenue, Tax Research Unit	Senior Research Officer	2	2
	c) Department of Revenue, Directorate of Stat. & Intelligence, (Custom & Excise) CBEC	Senior Research Officer	2	2
	d) Directorate of Income Tax (Research, Statistics & Publicity)	Asstt. Chief Statistical Officer	1	1
12	Ministry of Food Processing Industries	Deputy Director	1	...	1
13	Ministry of Health & Family Welfare		17	17
	a) Department of Health (including DGHS and its attached and Subordinate offices)	Deputy Director	9	9
	b) Department of Family Welfare	Deputy Director/ Senior Statistician	7	7
	c) Department of Ayush	Deputy Director	1	1
14	Ministry of Home Affairs		6	6
	a) Department of Home, Intelligence Bureau	Deputy Director	1	1
	b) Department of Home, Office of the Registrar General of India	Senior Research Officer	4	4

15	c) Department of Home, National Crime Record Bureau	Chief Statistical Officer	1	1
	Ministry of Human Resource Development		5	5
	a) Department of Secondary & Higher Education	Deputy Director	2	2
	b) Department of Women & Child Development	Deputy Director	3	3
16	Ministry of Labour		10	10
	a) Ministry Proper	Deputy Director	1	1
	b) Directorate General of Employment & Training	Deputy Director	1	1
	c) Directorate General of Factory Advice Services & Labour Institute, Mumbai	Deputy Director	1	1
	d) Directorate General of Mines Safety, Dhanbad	Deputy Director	3	3
	e) Labour Bureau, Shimla/Chandigarh	Deputy Director	4	4
17	Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur	Deputy Mineral Economist	4	...	4
18	Planning Commission		8	8
	a) Planning Commission	Senior Research Officer	7	7
	b) Programme Evaluation Organisation (PEO)	Senior Research Officer	1	1
19	Ministry of Shipping, Road Transport & Highways , Department of Road Transport & Highways	Deputy Director	2	2
20	Ministry of Rural Development	Deputy Director	1	1
21	Ministry of Small Scale Industries Office of Development Commissioner (Small Scale Industries)	Deputy Director	6	6
22	Ministry of Statistics & Programme Implementation		87	87
	a) Central Statistical Organisation	Deputy Director	30	30
	b) National Sample Survey Organisation (Field Operations Division)	Deputy Director	57	57
23	Ministry of Steel	Deputy Director	1	1

24	Ministry of Textiles		2	2
	a)Office of the Textile Commissioner, Mumbai	Deputy Director	1	1
	b)Office of the Development Commissioner, Handicrafts	Deputy Director	1	1
25	Ministry of Tourism	Deputy Director	2	2
26	Ministry of Tribal Affairs	Deputy Director	2	2
27	Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation, National Buildings Organisation	Deputy Director	1	1
28	Ministry of Water Resources		12	12
	a)Ministry (Proper)	Deputy Director	3	3
	b)Central Water Commission	Deputy Director	7	7
	c)Central Water & Power Research Station, Pune	Deputy Director	1	1
	d) Central Ground Water Board, Faridabad	Deputy Director	1	1
Junior Time Scale (Rs. 8000 - 275 - 13500)			230	230
1	Ministry of Agriculture		11	11
	a) Department of Agriculture & Co-operation (Proper)	Assistant Director	2	2
	b)Department of Agriculture & Co-operation Directorate of Economics & Statistics	Assistant Director	3	3
	c)Department of Agriculture & Co-operation, Commission for Agricultural Costs & Prices	Research Officer	1	1
	d) Department of Animal Husbandry & Dairying	Assistant Director	5	5
2	Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation	Assistant Director	2	...	2
3	Ministry of Commerce and Industry		16	16
	a) Department of Commerce, Directorate General of Foreign Trade	Assistant Director	4	4
	b) Department of Commerce, Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Kolkata	Assistant Director	5	5

	c) Department of Commerce, Directorate General of Supplies & Disposals	Assistant Director	5	5
	d) Department. of Industrial Policy & Promotion	Assistant Director	1	...	1
	e) Department of Industrial Policy & Promotion, Office of Economic Adviser	Assistant Director	1	1
4	Ministry of Company Affairs	Assistant Director	1	1
5	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, a)Department of Food and Public Distribution	Assistant Director	1	1
6	Ministry of Culture	Assistant Director	4	4
7	Ministry of Defence		7	7
	a) Management Information System Organisation (MISO) DG, Info.Sys	Assistant Director	4	4
	b) Air Headquarters	Assistant Director	1	1
	c) Directorate of Flight Safety (under Air Headquarters)	Assistant Director	2	2
8	Ministry of Finance		2	2
	a) Department of Revenue (Tax Research Unit)	Research Officer	1	1
	b) Directorate of Income Tax (Research, Statistics & Publicity) (CBDT)	Statistician	1	1
9	Ministry of Food Processing Industries	Assistant Director	1	1
10	Ministry of Health & Family Welfare		20	20
	a) Department of Health (including DGHS and its attached and Subordinate offices)	Assistant Director/Statistician/Statistical Officers	11	11
	b) Department of Family Welfare	Assistant Director	8	8
	c) Department of Ayush	Assistant Director	1	1
11	Ministry of Home Affairs		5	5
	a) Department of Home, Bureau of Police Research & Development	Assistant Director	1	1
	b) Department of Home, Office of Registrar General of India	Research Officer	3	3
	c) Department of Home, NCRB	Assistant Director	1	1

12	Ministry of Human Resource Development		12	12
	a) Department of Secondary and Higher Education	Assistant Director	7	7
	b) Department of Women & Child Development	Assistant Director	5	5
13	Ministry of Labour		14	14
	a) Ministry (Proper)	Assistant Director	3	3
	b) Dte. General of Employment and Training	Assistant Director	1	1
	c) O/o Chief labour Commissioner	Assistant Director	1	1
	d) Labour Bureau, Shimla/ Chandigarh	Assistant Director	9	9
14	Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur	Assistant Mineral Economist	5	5
15	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Research Officer	1	1
16	Planning Commission		7	7
	a) Planning Commission	Research Officer	5	5
	b) Programme Evaluation Organisation (PEO)	Research Officer	2	2
17	Ministry of Rural Development	Assistant Director	5	5
18	Ministry of Small Scale Industries, Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries)	Assistant Director	12	12
19	Ministry of Statistics & Programme Implementation		87	87
	a) Central Statistical Organisation	Assistant Director	10	10
	b) National Sample Survey Organisation (Field Operations Division)	Assistant Director	77	77
20	Ministry of Steel	Assistant Director	1	1
21	Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, Mumbai	Assistant Director	1	1
22	Ministry of Tourism	Assistant Director	4	4
23	Ministry of Urban Development, Town & Country Planning Organisation (TCPO)	Assistant Director	1	1
24	Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation		3	3

	a) National Buildings Organisation	Research Officer	3	3
25	Ministry of Water Resources		7	7
	a) Ministry(Proper)	Assistant Director	2	2
	b) Central Water Commission	Assistant Director	4	4
	c) Central Water & Power Research Station, Pune	Research Officer	1	1

[F No. 11011/3/2005-ISS]

A. K. SAXENA, Jt. Secy.

Note :

(1) Principal Rules were published vide – GSR(E) 1320 dated 1st November, 1961 in Gazette of India (Extraordinary) in Part II, Section 3 Sub-section (i), and were subsequently amended as follows:-

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	247	22 nd Feb., '64
2.	286	27 th Feb., '65
3.	1950	24 th Dec., '66
4.	1996	31 st Dec., '66
5.	1640	4 th Nov., '67
6.	50	10 th Jan., '70
7.	1273	5 th Sept., '70
8.	1702	26 th Sept., '70
9.	174	12 th Feb., '72
10.	196	19 th Feb., '72
11.	202(E)	19 th April, '73
12.	454	5 th May, '73
13.	692	7 th July, '73
14.	1087	6 th Oct., '73
15.	1156	27 th Oct., '73
16.	688	6 th July, '74
17.	1039	28 th Sept., '74
18.	201	15 th Feb., '75
19.	478	19 th April, '75
20.	757	21 st June, '75
21.	935	2 nd Aug., '75
22.	2663	15 th Nov., '75
23.	1395	2 nd Oct., '76
24.	1521	30 th Oct., '76
25.	156	5 th Feb., '77
26.	1396	22 nd Oct., '77
27.	360	18 th March, '78

28.	1252	21 st Oct., '78
29.	854	23 rd June, '79
30.	1080	25 th Aug., '79
31.	423	19 th April, '80
32.	897	6 th Sept., '80
33.	155	14 th Feb., '81
34.	473	16 th May, '81
35.	748	15 th Aug., '81
36.	142	13 th Feb., '82
37.	710	13 th Sept., '83
38.	138	9 th Feb., '85
39.	502	25 th May, '85
40.	1124	27 th Dec., '86
41.	2	3 rd Jan., '87
42.	109(E)	20 th Feb., '89
43.	512	18 th Aug., '90
44.	144	26 th March, '94
45.	502	15 th June, '95
46.	16	17 th Jan., '98
47.	289	11 th Sept., '99
48.	24(E)	13 th Jan., '03
49.	25(E)	13 th Jan., '03
50.	583(E)	14 th Sept., '05
51.	584(E)	14 th Sept., '05

Explanatory Memorandum

Consequent upon the issuance of the Executive Order No.12011/1/2003-ISS (Vol.V) which was issued based on the Union Cabinet approval to the restructuring of the Indian Statistical Service (ISS) Cadre, the amendment of the Indian Statistical Rules, 1961 proposing to amend the Schedule I is amended accordingly with effect from the 5th January, 2006. It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to the said rules.